

अमूल के नाम से तैयार हो रहा था नकली देसी घी, 300 किलो माल के साथ एक गिरफ्तार

Faridabad News in Hindi



पकड़ा गया नकली घी

अधिकारी इस मामले में लगभग 500 किलो घी बरामद होने का दावा कर रहे हैं, जबकि पकड़ा गया आरोपी 200 किलो से अधिक घी पकड़े जाने का दावा कर रहा है.

NEWS18 HARYANA

LAST UPDATED: JUNE 1, 2019, 2:36 PM IST

[होम](#) » [हरियाणा](#)

[deepak kumar](#)

देश के **मशहूर ब्रांड अमूल** के नाम से बनाए जा रहे घी का फरीदाबाद पुलिस ने किया भंडाफोड़ और मामले में एक आदमी को गिरफ्तार किया है. अमूल के नाम से फरीदाबाद के सेक्टर 58 में यह घी बनाकर इसे मार्केट में बेचा जा रहा था. अधिकारी इस मामले में लगभग 500 किलो घी बरामद होने का दावा कर रहे हैं, जबकि पकड़ा गया आरोपी 200 किलो से अधिक घी पकड़े जाने का दावा कर रहा है. फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच के बाद ही पता चल पाएगा की फरीदाबाद में यह नकली घी कब से बनाया जा रहा था और मार्केट में इसे कम से सप्लाई किया जा रहा था.

गुप्त सूचना के आधार पर छापा

स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी फरीदाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर से होकर निकलने वाली है जिसमें अमूल ब्रांड के नाम से नकली घी है. सूचना देने वाली ने यह भी बताया कि डालडा घी मिक्स करके अमूल के नाम से यह भी बनाया जाता है और मार्केट में दुकानदारों को बेचा जाता है. गिरफ्तार आरोपी की मानें तो सेक्टर 58 में इसकी को बनाने का कारखाना है और घी को बनाने में चर्बी और डालडा घी का इस्तेमाल किया जाता है. आरोपी की मानें तो पिछले लंबे समय से वे इस काले कारोबार को चला रहे हैं. आरोपी की मानें तो 200 किलो से अधिक ही उनसे पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने बरामद किया है.

एक आरोपी गिरफ्तार

वहीं थाना प्रभारी दीपक कुमार की माने तो पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर से होकर एक गाड़ी गुजरने वाली है जिसमें अमूल कंपनी के नाम से भारी मात्रा में नकली घी भर कर जा रहा है. पुलिस ने सेक्टर 58 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में नाकेबंदी की और इस गाड़ी को बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. थाना प्रभारी की माने तो यह अभी जांच का विषय है कि यहां यह कारोबार कब से किया जा रहा था और इसमें कौन-कौन लोग शामिल है.

Source: <https://hindi.news18.com/news/haryana/faridabad-fake-amul-desi-ghee-recovered-in-faridabad-hrrm-2064082.html>